

Advertisement No.: IITD/IRD/107/2018

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	LHC Facility Management (MI01629)	
Funding Agency	Industrial Research & Development Unit	
Name of the Project Investigator	Prof. Gaddam Vijaya Prakash	
Deptt./Centre	Department of Physics	
Duration of the Project	Upto:01/10/2020	
Post (s)	Consolidated Pay-slab	Qualifications
Project Assistant (Tech) (1)	Rs.23,500-25,850-28,000-30,550-32,900-35,250-37,600/- per month plus HRA @ 20%	Graduate Degree with more than 8 years relevant experience from reputed organizations. Necessary: Must have experience in operation of AV/CCTV and other high-end equipment. Desirable: Diploma / training in areas relevant to responsibilities of maintaining building facilities (Civil works, electrical / electronics/networking (AV, RFID,CCTV operations, networking etc.) with multiple skills.
Jr. Project Assistant (Tech) (2)	Rs.14,000-15,400-16,800-18,200-19,600-21,000-22,400/- per month plus 20% HRA	Graduate Degree / Diploma (3 years duration) / ITI (2 years duration) with more than 4 years in exclusive experience of maintenance of equipment / AV facilities for large facilities. Desirable: The candidate should have work experience in dealing with class room, Audio & Video facilities and familiar with repair / installation / troubleshooting of AV instruments such as projectors, audio systems etc.

The post may be downgraded as per discretion of the Selection Committee if none of the candidate is found suitable for the post. यदि कोई उम्मीदवार पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है तो यह पद चयन समिति के विवेक के अनुसार डाउनग्रेड किया जा सकता है। The candidates who are interested to apply for the above post should download Form No. IRD/REC-4 from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. **by post to Prof. Gaddam Vijay Prakash, Department of Physics, IIT DELHI, Hauz Khas, New Delhi-110016. The advertisement No. & post applied for must be mentioned on the left side of the application.**

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the interview details. Only short-listed candidates will be informed In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact Prof. G.V. Prakash at his e-mail id: prakash@physics.iitd.ac.in 5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। **The last date for submitting the completed applications by post is 31/05/2018 by 5.00 p.m.** The shortlisted candidates who are called for interview should bring original certificates (both professional and academic) with a recent passport size photograph at the time of interview.

(वीरेंद्र कुमार वशिष्ठ)
सहायक कुलसचिव, आईआरडी

वितरण

- Dept./Centres/Units के प्रमुख: यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त विज्ञापन की सामग्री आपके विभाग / केंद्र / यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाएगा
- वेबमास्टर, आईआरडी (Web Master, IRD): आईआईटीडी वेबसाइट पर विज्ञापन डालने के लिए
- नोटिस बोर्ड (Notice Board)
- विज्ञापन फाइल (Advertisement File)
- प्रो. जी. विजया प्रकाश, परियोजना अन्वेषक, भौतिकी विभाग